



Texmo/Sec/2024-25/44

November 15, 2024

**To,
Manager (Listing)
National Stock Exchange of India Ltd
Exchange Plaza, 5th Floor
Bandra kulra Complex, Bandra (E)
Mumbai 400051**

**To,
The Corporate Relationship Department
Bombay Stock Exchange Ltd,
Floor 25, New Trading Ring,
P.J.Tower, Dalal Street,
Mumbai-400001**

Ref: Texmo Pipes and Products Limited (ISIN - INE141K01013), BSE Code - 533164, NSE Symbol - TEXMOPIPES

Sub:- Newspaper Publication - Standalone and Consolidated Un-Audited Financial Results for the quarter and half year ended September 30, 2024

Dear Sir/Madam,

Please find enclosed copies of Extract of Standalone and Consolidated Un-Audited Financial Results for the quarter and half year ended September 30, 2024 published in the following newspapers:

- 1) Free Press (English) on Friday, November 15, 2024.
- 2) Choutha Sansar (Hindi) on Friday, November 15, 2024.

This is for the information of the exchange and members thereof.

Kindly take the same on your record.

Thanking You
Yours Faithfully

For **Texmo Pipes and Products Limited**

**Ajay Shrivastava
Company Secretary and Compliance Officer**

Encl: As above.

Court rejects Bibi's bid to delay corruption trial

Agencies
TEL AVIV

An Israeli court on Wednesday rejected a new request by Prime Minister Benjamin Netanyahu to delay testifying at his corruption trial, ruling that he must take the stand next month even as the country is at war in Gaza and Lebanon. The spectacle of a sitting prime minister defending himself against graft charges is likely to further polarize Israelis, and Mr. Netanyahu's legal troubles have long split the country. His supporters claim that a liberal deep state is trying to oust him by judicial means after failing to do so at the ballot box, and his opponents have called on him to resign, with some accusing him of prolonging the fighting and the case to keep himself in power and out of jail.



The court ruled that the PM must take the stand on Dec 2 in a trial that has stretched out for more than 4 years

at the Jerusalem District Court. He has denied any wrongdoing in the cases,

which center on accusations that he arranged favors for tycoons in exchange for gifts and sympathetic media coverage for himself and his family. The trial has stretched on since 2020 as the court has made its way through a list of more than 300 witnesses.

stand on Dec. 2, after having already delayed his testimony once. On Wednesday, it quickly rejected another request, filed by Mr. Netanyahu late Sunday, asking to push his testimony back by a further 10 weeks. Mr. Netanyahu argued that he was too busy during wartime to prepare a defense, though he has long said that he can be prime minister and on trial at the same time.

The court found that its previous ruling, setting the testimony date for early December, had taken the war and other considerations into account. "We have not been convinced of any significant change in circumstances that would justify changing the date," the judges wrote in their decision on Wednesday. The court decision comes as investigators were looking into whether Mr. Netanyahu's aides leaked sensitive intelligence material and doctored the official records of phone conversations, according to officials.

The court ruled that Mr. Netanyahu must take the

BIDEN, JINPING TO MEET IN PERU



AP
WASHINGTON

China's Xi Jinping will hold talks with US President Joe Biden on the sidelines of an international summit in Peru, a face-to-face meeting that comes as Beijing braces for Donald Trump's return to the White House.

White House National Security Advisor Jake Sullivan said the meeting will take place while the two leaders are in Lima for the Asia-Pacific Economic Cooperation summit. That will come just over two months before Trump's inauguration. Sullivan was vague about how Biden will answer expected questions from Xi and his aides about the incoming

Trump administration. "Transitions are uniquely consequential moments in geopolitics. They're a time when competitors and adversaries can see possibly opportunity," Sullivan said. "And so part of what the President will communicate is that we need to maintain stability, clarity, predictability through this transition between United States and China."

Washington and Beijing have long had deep differences on the support China has given to Russia during its war in Ukraine, human rights issues, technology and Taiwan, the self-ruled democracy that Beijing claims as its own. Trump's second administration is expected to test relations further.

Man blasts self outside Brazil's Supreme Court

BRASILIA: In an attack on the political heart of the country, a man killed himself while detonating explosives after trying to enter Brazil's Supreme Court, authorities said on Wednesday. The attack prompted the evacuation of court staff and legislators in

the Brasilia. Officers found explosives and a timer attached to the man's body and are conducting an X-Ray assessment to determine whether there is further danger from possible explosives on his belt, according to a police spokesperson.

Sam Industries Limited				
CIN: L70102MP1994PLC041416				
Regd. Office - Village Dakachiyra, A.B. Road, Tehsil: Sanwer, District- Indore- 453771 (M.P.), India				
Phone: 0991-731-4229717				
Website: www.samindustriestd.com, Email: secretarial@samindustriestd.com				
Extract of Statement of Un-audited Standalone Financial Results for the quarter ended 30th September, 2024				
(Rs. in Lakhs except per share data)				
Sl. No.	Particulars	Quarter Ended 30.09.2024	Half Year Ended 30.09.2024	Quarter Ended 30.09.2023
		Unaudited	Unaudited	Unaudited
1.	Revenue from Operations	337.83	608.49	412.56
2.	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary Items)	61.70	260.02	1088.40
3.	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items))	61.70	260.02	1088.40
4.	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Extraordinary Items)	(2.68)	150.16	972.07
5.	Total Comprehensive Income for the period	(2.68)	150.16	972.07
6.	Paid up Equity Share Capital (Face Value of Rs. 10/- each)	1108.85	1108.85	1108.85
7.	Other equity (Reserve excluding Revaluation Reserve as shown in the preceding year audited Balance Sheet)	-	-	-
8.	Earnings Per Equity Share of face value Rs.10/- each	(0.02)	1.35	8.76
	Diluted (in Rs.)	(0.02)	1.35	8.76

Other Equity for the year ended as at March 31, 2024 was Rs.5660.35 Lakhs

Notes:-
1. The above financial results for the quarter ended 30th September 2024 were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meeting held on 14th November 2024 in terms of regulation 33 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015.
2. The statutory auditors have performed a "Limited Review" of the above financial results for the quarter ended September 30, 2024.
3. In the Statement of Standalone Unaudited Financial Results for the Half Year Ended 30th September 2024, the "Other Income" includes the amount of Rs. 10.85 Lakhs (Half Year Ended 30.09.2023: Rs.307.03 lakhs) on account of Remeasurement of Investment of Fair Value through Profit and Loss account (FVTPL). Further, includes Rs. 27.20 lakhs (Half Year Ended 30.09.2023: Rs.540.39 lakhs) net income on account of sale of long term investments.
4. The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the BSE Limited Stock Exchange's website at www.bseindia.com and on the Company's website at www.samindustriestd.com

For Sam Industries Limited
Kishore Kale
Whole Time Directors
DIN: 01743556

Place: Indore
Date: 14.11.2024

5-year ban from office, jail for Le Pen sought



Agencies
PARIS/BRUSSELS

A Paris prosecutor has requested a five-year prison sentence and a five-year ban from public office for the far-right leader Marine Le Pen, at a trial in which she and 24 others are accused of embezzling European Union funds. The trial, which comes almost a decade after initial investigations started, threatens to undermine her National Rally (RN) party's efforts to polish its image before the 2027 presidential election, which many believe she could win.

On Wednesday, the Paris prosecutor requested a €300,000 (£249,439) fine, five years in prison and an ineligibility sentence against Le Pen, with provisional execution - meaning the ban on running for public office would take immediate effect.

If the court finds her guilty of the charges with this provisional execution, Le Pen will not be able to run in elections even if she appeals against the judgment, the Guardian said. The trial runs until November 27, after which the judges will retire to consider their verdict and consider what sentence to hand down. The verdict is likely to be announced in early 2025. Le Pen, the RN party, and 24 others - party officials, employees, former lawmakers and parliamentary assistants - are accused of using European parliament money to pay staff in France who were working for their party, which at the time was called the National Front.

"The law applies to all," prosecutor Nicolas Barret told the court, as Le Pen sat in the front row of the defendants' benches, adding that the ban would "prohibit the defendants from running in future local or national elections".

He demanded a five-year jail sentence for Le Pen, calling for at least two years of that to be a "convertible" custodial sentence, meaning there would be a possibility of partial release.

ITL Industries Limited						
Regd. Office : 111, Sector-B, Sanwer Road, Industrial Area, Indore-452015 (M.P.)						
Phone No.: 0731-7104400 Email: info@itl.co.in website: www.itl.co.in.						
CIN - L28939MP1989PLC005037						
Extract of Statement of Consolidated Un-audited Financial Results for the Quarter/Half Year Ended on 30.09.2024						
(Rupees in Lakhs except EPS)						
S. No.	Particulars	Quarter Ended		Half Year Ended		Year Ended
		30.09.2024 (Un-audited)	30.06.2024 (Un-audited)	30.09.2023 (Un-audited)	30.09.2024 (Un-audited)	30.09.2023 (Un-audited)
1	Total Income from Operations	4367.26	4096.68	3843.22	8463.94	15778.66
2	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	287.02	300.19	286.68	587.21	1228.79
3	Net Profit/(Loss) for period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	282.28	296.12	285.28	578.40	1209.57
4	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	203.54	231.13	200.08	434.67	381.06
5	The Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive income (after tax))	-1.15	27.34	1.64	26.19	3.65
6	Paid up Equity Share Capital	320.43	320.43	320.43	320.43	320.43
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve)	7151.48	6947.94	6213.46	7151.48	6213.46
8	Earning per share (before extraordinary item) (of Rs 10/- Each) (Not annualised)					
a)	Basic (₹)	6.35	7.21	6.24	13.57	11.89
b)	Diluted (₹)	6.35	7.21	6.24	13.57	11.89
9	Earning per share (after extraordinary item) (of Rs 10/- Each) (Not annualised)					
a)	Basic (₹)	6.35	7.21	6.24	13.57	11.89
b)	Diluted (₹)	6.35	7.21	6.24	13.57	11.89

Key Standalone Information

S. No.	Particulars	Quarter Ended		Half Year Ended		Year Ended
		30.09.2024 (Un-audited)	30.06.2024 (Un-audited)	30.09.2023 (Un-audited)	30.09.2024 (Un-audited)	30.09.2023 (Un-audited)
1	Total Income from Operation	4366.43	4088.46	3843.22	8454.89	15777.60
2	Profit Before Tax	277.03	291.62	283.72	568.65	1187.48
3	Profit After Tax	198.30	226.62	198.52	424.92	895.16

Notes: The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Half Yearly Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulation, 2015. The full format of the Quarterly/Half Yearly Financial Results are available on the Stock Exchange website viz. www.bseindia.com. The same is also available on the Company website viz. www.itl.co.in.

For ITL Industries Limited
Rajendra Jain
Managing Director DIN- 00256515

Place: Indore
Date: 14.11.2024

Khaiatan Chemicals and Fertilizers Limited						
CIN: L24219MP1982PLC004937						
Regd. Office : A.B. Road, Village Nimrani, Tehsil Kasrawad, Dist. Khargone-451569 (M.P.)						
Phone: 0731-4753666, E-mail: secretarial@kcfcl.in, Website: www.kcfcl.co.in						
Statement of Unaudited Financial Results for the Quarter and Half Year ended September 30, 2024						
(Amount ₹ in Lacs)						
Sr. No.	Particulars	Quarter Ended		Half Year Ended		Year Ended
		30.09.2024 (Un-audited)	30.06.2024 (Un-audited)	30.09.2023 (Un-audited)	30.09.2024 (Un-audited)	30.09.2023 (Un-audited)
1	Total Income from Continuing Operations	23,094.81	13,014.88	19,399.89	35,795.71	53,739.46
2	Profit / (Loss) before Depreciation and Tax (Cash Profits) from Continuing Operations	112.38	(1,417.27)	339.61	(227.76)	(1,304.90)
3	Net Profit / (Loss) for the period / year (before Tax & Exceptional items) from Continuing Operations	(178.85)	(1,670.79)	58.81	(787.33)	(1,849.64)
4	Tax Expenses (including Deferred tax)	128.05	0.04	47.58	(123.87)	128.09
5	Net Profit / (Loss) for the period (after tax & Exceptional items) - Continuing Operation	(306.90)	(1,670.83)	11.23	(663.46)	(1,977.73)
6	Profit / (Loss) for the period / year - Discontinuing Operation	-	-	-	52.62	-
7	Net Profit / (Loss) for the period (after tax & exceptional items) - Continuing & Discontinued Operation	(306.90)	(1,670.83)	11.23	(610.84)	(1,977.73)
8	Total Comprehensive Income for the period/year [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	(276.84)	(1,670.93)	141.93	(520.59)	(1,947.77)
9	Equity Share Capital	969.89	969.89	969.89	969.89	969.89
10	Other Equity (As per last audited Balance Sheet)	-	-	-	-	21,079.02
11	Earning Per Share (of ₹ 1/- each) (not annualised)					
	Basic and Diluted - Continuing Operation (Rupees)	(0.32)	(1.72)	0.01	(0.69)	(2.04)
	Basic and Diluted - Discontinued Operation (Rupees)	-	-	-	0.06	-
	Basic & Diluted-Continuing Operation and Discontinued Operation (Rupees)	(0.32)	(1.72)	0.01	(0.63)	(2.04)

Notes: The above is an extract of the detailed format of Quarterly and Half Yearly Financial Statements filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015. The full format of the Quarterly and Half Yearly Financial Statements are available on the Stock Exchange websites (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and also hosted on the Company's website (www.kcfcl.co.in).

By order of the Board
For Khaiatan Chemicals and Fertilizers Limited
Sd/-
(Shailesh Khaiatan)
Chairman & Managing Director
DIN : 00041247

Place: New Delhi
Date : November 14, 2024

TEXMO PIPES AND PRODUCTS LIMITED												
Regd. Office: 95, Bahadurpur Road, Burhanpur (M.P.) 450 331												
Phone : 07325-255122, Fax: 07325-252773 Email: texmopipe@texmopipe.com Website: https://texmopipe.com												
Extract of Standalone / Consolidated Unaudited Financial Results for the Quarter ended 30th September, 2024												
(Rs. in Lakhs, except as stated otherwise)												
Particulars	Standalone						Consolidated					
	Quarter ended 30th September, 2024 (Unaudited)	Quarter ended 30th June, 2024 (Unaudited)	Quarter ended 30th September, 2023 (Unaudited)	Half Year ended 30th September, 2024 (Unaudited)	Half Year ended 30th September, 2023 (Unaudited)	Year ended 31st March, 2024 (Audited)	Quarter ended 30th September, 2024 (Unaudited)	Quarter ended 30th June, 2024 (Unaudited)	Quarter ended 30th September, 2023 (Unaudited)	Half Year ended 30th September, 2024 (Unaudited)	Half Year ended 30th September, 2023 (Unaudited)	Year ended 31st March, 2024 (Audited)
Total Income from Operations (net)	6,174.71	11,104.48	12,284.58	17,279.19	32,712.67	53,959.07	6,423.60	11,904.71	12,284.58	18,328.31	32,712.67	53,550.24
Net Profit from ordinary activities before tax	225.85	572.06	136.60	797.93	1,047.61	1,506.46	55.22	796.95	135.72	854.17	1,046.73	1,013.88
Net Profit from ordinary activities after tax	306.66	436.97	95.29	743.65	809.98	962.25	145.83	616.94	94.40	762.76	889.09	456.43
Total comprehensive income for the period (Comprising Profit for the period after tax and Other Comprehensive income after tax)	301.28	431.59	103.97	732.88	907.34	940.72	248.26	559.92	109.30	806.14	912.67	334.45
Equity Share Capital	2,919.50	2,919.50	2,919.50	2,919.50	2,919.50	2,919.50	2,919.50	2,919.50	2,919.50	2,919.50	2,919.50	2,919.50
Other equity	1.05	1.50	0.33	2.55	3.05	3.30	0.50	2.11	0.32	2.61	3.05	1.57
Earnings per Share (not annualised) (Face value of Rs.10/- each) - Basic EPS (in Rs.) (not annualised)	1.05	1.50	0.33	2.55	3.05	3.30	0.50	2.11	0.32	2.61	3.05	1.57
Earnings per Share (not annualised) (Face value of Rs.10/- each) - Diluted EPS (in Rs.) (not annualised)												

Notes:
1. The above is an extract of the detailed format of Quarter and Half Year ended 30th September 2024, filed with Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/Annual Financial Results for the Quarter and Half Year ended 30th September, 2024 are available on the Stock Exchanges websites www.bseindia.com & www.nseindia.com and on the Company website (https://texmopipe.com).
2. The statement of standalone & consolidated quarterly financial results have been prepared in accordance with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 [Ind AS] prescribed under section 133 of the Companies Act, 2013. The figures for the previous periods have been restated, regrouped and reclassified wherever required to comply with the requirements of Ind AS.

Burhanpur, November 14th, 2024

For and on behalf of Board of Directors of
Texmo Pipes and Products Limited
Sanjay Kumar Agrawal
Managing Director
DIN - 00316249

TIRUPATI STARCH & CHEMICALS LIMITED													
CIN: L15321MP1985PLC003181													
Registered Office: Shree Ram Chambers, 12, Agrawal Nagar Main Road, Indore-452 001 (M.P.)													
Phone: 0731-4905001, 4905002, E-mail: tirupati@tirupatistarch.com, Website: www.tirupatistarch.com													
Extract of the Standalone and Consolidated Unaudited Financial Results for the Quarter & Half Year Ended on 30th September, 2024													
(₹ in Lacs except EPS)													
S. No.	Particulars	Standalone						Consolidated					
		Quarter ended 30.09.2024 (Unaudited)	Quarter ended 30.06.2024 (Unaudited)	Quarter ended 30.09.2023 (Unaudited)	Half Year ended 30.09.2024 (Unaudited)	Half Year ended 30.09.2023 (Unaudited)	Year ended 31.03.2024 (Audited)	Quarter ended 30.09.2024 (Unaudited)	Quarter ended 30.06.2024 (Unaudited)	Quarter ended 30.09.2023 (Unaudited)	Half Year ended 30.09.2024 (Unaudited)	Half Year ended 30.09.2023 (Unaudited)	Year ended 31.03.2024 (Audited)
1.	Total Income from Operations	10339.88	8632.90	6165.97	18972.78	13698.92	30650.77	10339.88	8632.90	6165.97	18972.78	13698.92	30650.77
2.	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	32.14	(191.51)	15.50	(159.37)	82.47	304.65	32.12	(191.51)	15.50	(159.38)	82.47	316.72
3.	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	32.14	(191.51)	15.50	(159.37)	82.47	304.65	32.12	(191.51)	15.50	(159.38)	82.47	316.72
4.	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	65.76	(208.22)	3.54	(142.45)	58.55	207.40	65.74	(208.22)	3.54	(142.47)	58.55	219.46
5.	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	81.59	(246.03)	(2.28)	(164.43)	46.13	198.90	81.57	(246.03)	(2.28)	(164.45)	46.13	210.97
6.	Equity Share Capital (Face Value of ₹ 10/- each)	958.9221	958.9221	809.1567	958.9221	809.1567	958.9221	958.9221	958.9221	809.1567	958.9221	809.1567	958.9221
7.	Earnings Per Share (for continuing operations) Basic & Diluted	0.69	(2.17)	0.04	(1.63)	0.72	2.38	0.69	(2.17)	0.04	(1.49)	0.72	2.52

Notes:
1. These financial results are prepared in compliance with Indian Accounting Standards ("IND-AS") as notified under Section 133 of the Companies Act, 2013 ("the Act") [Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015] as amended and regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.
2. The above Standalone and Consolidated results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company, at their Meetings held on November 14, 2024 and also reviewed by Statutory Auditors, pursuant to regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.
3. The Company has only one reportable business segment i.e. Manufacturing of Starch and allied products based on guiding principles given in Ind AS 108 "Operating Segments". Accordingly, the disclosure requirements as per Ind AS 108 are not applicable.
4. Previous periods figures have been re-grouped wherever necessary, to conform to the current period's classification.
5. The above is an extract of the detailed format of Un-audited Financial Results filed with BSE under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Un-audited Financial Results are available on the Stock Exchange's website, www.bseindia.com and on the Company's website www.tirupatistarch.com

For & on behalf of the Board of Directors of
Tirupati Starch & Chemicals Limited
Sd/-
Amit Modi (Managing Director)
DIN: 03124351

Date: 14.11.2024
Place: Indore

